

Portions:

पाठ - 6 बेगीचा

व्याकरण - 10 शब्द भण्डार

पूर्यायवाची - 11-20

विलोम शब्द 11-20

व्याकरण - 9 - विश्व चिह्न

वाक्यांश के निघ एक शब्द 11-20

पाठ - 6 बेगीचा

1 शब्दार्थ Page No - 39

1 प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए

क) बच्चों ने शुरुपियों से क्या खाया ?

उ: बच्चों ने शुरुपियों से घास और जमीन खाया।

ख) बच्चों ने क्यारियों में क्या बोया ?

उ: बच्चों ने क्यारियों में बीज बोए।

ग) बीजों से क्या निकले ?

उ: बीजों से अंकुर निकले।

घ) पौधों पर कौन-कौन से रंग के फूल खिले ?

उ: लाल, पीले, सफेद और बैंगनी रंग के फूल खिले।

लिखित अध्यास :

1. खाली स्थान भरिए ।

क. पौधे ख) खुरपियों ग) बीज घ) फुल्लवारी

2. प्रश्नों उत्तर लिखिए :

क) अद्यापिका ने बच्चों को क्या लगाने के लिए कहा ?

उ: अद्यापिका ने बच्चों से पौधे लगाने के लिए कहा

ख) बच्चों ने क्या-क्या कैसे बनाई ?

उ: बच्चों ने खुरपियों से घास, खादी और फिर मैदान खूब पानी डाला, जिससे जीली हो गई। उसके बाद बच्चों ने खुरपियों से जमीन खादी।

इस तरह बच्चों ने क्या-क्या बनाई।

ग) पौधे किस प्रकार बड़े होने लगे ?

उ: बच्चों ने क्या-क्या में बीज बोए, फिर उनमें पानी दिया। कुछ दिनों के बाद बीजों से अंकुर निकले। अंकुर धीरे-धीरे बड़े होने लगे। बच्चे रोज पौधों में पानी देते रहे।

इस तरह पौधे बड़े होने लगे।

घ) अध्यापिका ने फूलों को देखकर बच्चों को क्या कहा?

उ: अध्यापिका ने फूलों को देखकर बच्चों से कहा - ये फूल बहुत सुंदर हैं। देखा तुम इन्हें तोड़ना मत। फूलवारी से स्कूल कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हम अपने नगर और घर में तथा आस-पास वृक्ष और पौधे लगाने चाहिये।

इ) बच्चों ने अध्यापिका की बात को क्या कहकर उत्तर दिया?

उ: अध्यापिका की बात सुनकर बच्चों ने कहा "अध्यापिका जी हम कभी फूल नहीं तोड़ेंगे और अपने घरों में तथा आसपास भी पौधे लगाएंगे।"

शब्द ज्ञान - विलोम शब्द लिखिए

क) कल ख) छोटा ग) सुखा घ) कठिन

ठ) दिन च) थोड़ा छ) लेना ज) बुरा

उदाहरण :

वाक्यों में से क्रिया - विशेषण चुनकर लिखिए :

क) ऊँचा बोलती है।

ख) अच्छा खेलता है।

ग) गलती करता है।

घ) तेज़ दौड़ता है।

ङ) धीरे लिखता है।

पर्यायवाची शब्द - 11-20 Page No-64

विलोम शब्द - 11-20 Page No-67

वाक्यांश के लिए एक शब्द - 11-20 Page No-69

chapter - 9 (उदाहरण बुक)

विशम चिह्न

Page No: 63

④ विशमचिह्न किसे कहते हैं ?
उ: वाक्यों में विशम देने के लिए जिन चिह्नों का
प्रयोग किया जाता है उन्हें विशमचिह्न कहते हैं।

५

विशम चिह्न

1. शालू छोटे-छोटे पाँच उखाड़ रही थी, तभी वहाँ माँ आ गई। उन्होंने शालू से कहा - "पेड़ - पाँच हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन्हें क्यों उखाड़ रही हो? ये हमें फूल - फल और लकड़ें देते हैं। दवायाँ और शुद्ध हवा भी देते हैं। पेड़ - पाँचों के बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा! आगे से मैं इन्हें कभी नहीं उखाड़ूँगी।" शालू ने कहा।

2. क) याजक चिह्न ख) उद्घरण चिह्न
ग) विशमबोधक घ) उद्घरण चिह्न

3) क) वह घर जा रहा है।

ख) नहीं, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा।

4) ग) इस फूल का नाम क्या है?

घ) वाह! भारत ने विश्व कप जीत लिया।